



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904  
No. 298] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1982  
(सं. 225/82-सीमा शुल्क)

सा. का. नि. 600(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक सं. 100.01 के अधीन आने वाले रंगीन टेलीविजन सेटों को, जब उनका आयात और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अधीन भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 29/82, तारीख 11 अक्टूबर, 1982 (शुली साधारण अनुज्ञप्ति सं. 23/82, तारीख 11 अक्टूबर, 1982 से सम्बन्धित) के अधीन और उसके अनुसरण में यात्री सामान के रूप में भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतरे भाग से जितना मूल्य के सौ प्रतिशत अधिक है, छूट देती है।

2. यह अधिसूचना, तारीख 4 दिसम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 355/152/82-सी. शु.-1]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th October, 1982  
(NO. 225/82-CUSTOMS)

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Colour Television Sets falling under Heading No. 100.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India as baggage under and in accordance with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 29/82, dated the 11th October, 1982 (relating to Open General Licence No. 23/82 dated the 11th October, 1982) made under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of 100 per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 4th day of December, 1982.

[F. No. 355/152/82-Cus.I]

(सं. 226/82-सीमा शुल्क)

सा. का. नि. 601(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 194-सीमा शुल्क, तारीख 26 सितम्बर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु यह कि तारीख 11 अक्टूबर, 1982 को और से प्रारम्भ होने वाली और तारीख 4 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसी छूट रंगीन टेलीविजन सेटों को उस दशा में लागू नहीं होगी, जब उनका आयात भारत में आयात और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अधीन किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 29/82 तारीख 11-10-1982 (खुली साधारण अनुज्ञप्ति सं. 23/82, तारीख 11-10-1982 से सम्बन्धित) के अधीन और उसके अन्तर्गत किया जाता है।

[फा. सं. 355/152/82-सी. शु.-1]

(NO. 226/82-CUSTOMS)

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 194-Customs, dated the 26th September, 1980, namely :—

In the said notification, the following proviso shall be added at the end, namely :—

“Provided that during the period commencing on and from the 11th day of October, 1982 and ending with the 4th day of December, 1982, such exemption shall not apply to Colour Television Sets imported into India under and in accordance with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 29/82 dated the 11th October, 1982 (relating to Open General Licence No. 23/82, dated the 11th October, 1982) made under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947).”

[F. No. 355/152/82-Cus.I]

(सं. 227/82-सीमा शुल्क)

सा. का. नि. 602(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंककारी विभाग) की अधिसूचना सं. 318-सीमा शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परन्तुक में जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु यह कि तारीख 11 अक्टूबर, 1982 को और से प्रारम्भ होने वाली और तारीख 4 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसी छूट रंगीन टेलीविजन सेटों को उस दशा में लागू नहीं होगी, जब उनका आयात भारत में आयात और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अधीन किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 29/82 तारीख 11-10-1982 (खुली साधारण अनुज्ञप्ति सं. 23/82, तारीख 11-10-1982 से सम्बन्धित) के अधीन और उसके अनुसार किया जाता है।

[फा. सं. 355/152/82-सी. शु.-1]

ए. के. छाबड़ा, उप-सचिव

(NO. 227/82-CUSTOMS)

G.S.R. 602(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking), No. 318-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, the following proviso shall be added at the end, namely :—

“Provided that during the period commencing on and from the 11th day of October, 1982 and ending with the 4th day of December, 1982, such exemption shall not apply to Colour Television Sets imported into India under and in accordance with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 29/82, dated the 11th October, 1982 (relating to Open General Licence No. 23/82, dated the 11th October, 1982) made under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947).”

[F. No. 355/152/82-Cus.II]

A. K. CHHABRA, Dy Secy.